



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1932 (श0)

(सं0 पटना 691) पटना, शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2010

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

13 मई 2010

सं0-1/सा0सु0-वि0यो0-04/10 स.क.-967—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) बिहार सरकार अधिनियम, 1995 की धारा-2 के उप-धारा (न) के अनुरूप विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निम्न तालिका में कंडिका-2 में अंकित विकलांगता के लिए तालिका में कंडिका-3 में अंकित अस्पताल एवं संस्थानों को चिकित्सा प्राधिकार एवं कंडिका-4 में अंकित अस्पतालों एवं संस्थानों के चिकित्सा पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से चिकित्सा प्राधिकार की ओर से विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	निःशक्तता के प्रकार	अस्पताल/संस्थान जो स्तंभ-2 में उल्लिखित निःशक्तता के प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्राधिकार निर्दिष्ट किये जाते हैं।	स्तंभ-3 में उल्लिखित अस्पताल/संस्थान में कार्य करने वाले चिकित्सा पदाधिकारी जो निःशक्तता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम होंगे।
1	2	3	4
1	(i) गत्यात्मक निःशक्तता, जो अंगोच्छेदन या पूर्णरूपेण स्थायी अंगघात से हो।	(i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (ii) राज्य सरकार के अधीन जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, असेैनिक अस्पताल, असेैनिक औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (पी0एच0सी0) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ए0पी0एच0सी0) (iii) चिकित्सा महाविद्यालय (iv) कानूनी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित अस्पताल/औषधालय।	(i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में हड्डी अथवा स्नायु तंत्र विभाग के सहायक प्राध्यापक अथवा प्राध्यापक। (ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ए0पी0एच0सी0) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, असेैनिक औषधालय, रेफरल अस्पताल के प्रभारी /वरीयतम चिकित्सक और चिकित्सा महाविद्यालय के प्रचार्य।

क्रमांक	निःशक्तता के प्रकार	अस्पताल/संस्थान जो स्तंभ-2 में उल्लिखित निःशक्तता के प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्राधिकार निर्दिष्ट किये जाते हैं।	स्तंभ-3 में उल्लिखित अस्पताल/संस्थान में कार्य करने वाले चिकित्सा पदाधिकारी जो निःशक्तता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम होंगे।
1	2	3	4
	(ii) दृष्टिहीनता		(iii) स्तंभ-3 में वर्णित अन्य अस्पतालों में कार्यरत वैसे चिकित्सक जो उस अस्पताल के प्रधान के आदेश द्वारा प्राधिकृत हो।
2	बहुनिःशक्तता	(i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (ii) जिला अस्पताल और रेफरल अस्पताल (iii) राज्य सरकार अथवा कानूनी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित वैसे अस्पताल जो सुसंगत अंगों (यथा श्रव्यतामितीय, दृष्टिमापीय, एवं अन्य जाँच सुविधा) के (क) विशेषज्ञ एवं (ख) आवश्यक माप/निर्धारण/मूल्यांकन सुविधा से युक्त हो। (iv) बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथिरेपी एण्ड ऑक्यूपेशनल थिरेपी (विकलांग अस्पताल, कंकड़बाग, पटना) (v) सैनिक अस्पताल, दानापुर, पटना और सैनिक अस्पताल, पहाड़पुर, गया।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला अस्पताल के प्रधान द्वारा, रेफरल अस्पताल के प्रधान द्वारा एक वरीय विशेषज्ञ एवं सुसंगत निःशक्तता से संबंधित शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को मिलाकर जिनकी न्यूनतम सेवा पाँच वर्ष हो, यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा बोर्ड।
3	वैसी निःशक्तताएँ जो उपर्युक्त क्रम संख्या 1 एवम् 2 में उल्लिखित नहीं हैं (यथा अल्प दृष्टि, कुष्ठ उपचारित, श्रवण ह्रासन (क्षीणता) मानसिक मंदता एवं मानसिक रूग्णता)	(i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (ii) जिला अस्पताल (iii) राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य अस्पताल या कानूनी स्थानीय निकाय जिनके पास विशेषज्ञों और सुसंगत क्षेत्रों में आवश्यक माप/आकलन/मूल्यांकन सुविधा हो (यथा ऑडियोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिक एवं अन्य जाँच की सुविधाएँ)।	ऐसा चिकित्सक जिसे सुसंगत निःशक्तता शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री एवं कम-से-कम पाँच साल का कार्य अनुभव हो।

नोट:—(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित क्रमांक-2 एवं 3 में यथोल्लिखित श्रेणी के संबंध में यदि कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल में सुसंगत शास्त्र स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ चिकित्सक उपलब्ध न हो, तो उस अस्पताल के प्रमुख अपेक्षित अर्हता प्राप्त सेवा-निवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों या उस जगह अथवा जिले में प्रैक्टिस कर रहे निजी चिकित्सकों या नजदीक के चिकित्सा महाविद्यालय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा ले सकते हैं। हालांकि गैर-सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा लेने पर, निःशक्तता प्रमाण-पत्र तभी वैध होगा जब उसे जिला के अस्पताल की दशा में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 2 एवं 3 के क्रम में कॉलम 2 में उल्लिखित अन्य अस्पतालों के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।

(ii) इसी प्रकार उपरोक्त अस्पतालों में यदि अपेक्षित मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध न हो तो अस्पताल के प्रमुख उसी स्थान अथवा जिले के निकट अवस्थित गैर-सरकारी परीक्षणशाला/जाँच सुविधा केन्द्र की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

- (iii) निःशक्तता प्रमाण-पत्र निर्गमन पारा मेडिकल/पुनर्वास कार्यकर्ता का सहयोग:-नियमावली में उल्लिखित विशेषज्ञ निम्नलिखित के अनुसार, यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, पारा मेडिकल/पुनर्वास कार्यकर्ता की सेवाओं का उपयोग कर सकें ताकि निःशक्तता का मूल्यांकन तीव्रता और सुगमता से हो सके :-

क्रमांक	निःशक्ता का प्रकार	सहायक पारा मेडिकल/पुनर्वास कार्यकर्ता
1	(i) चलन निःशक्तता (किसी भी प्रकार के प्रमस्तिस्क अंगघात) (सेरेब्रल पॉल्सी सहित) (ii) कुष्ठ उपचारित	ऑक्यूपेशनल चिकित्सक/कार्य चिकित्सक फिजियोथेरापिस्ट
2	(i) दृष्टिहीनता (ii) अल्पदृष्टि	वांछित सुविधा के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट
3	श्रवण ह्रासन (क्षीणता)	ऑडियोलॉजिस्ट/ऑडियोमेट्रिक जाँच केन्द्र/संसाधन केन्द्र की सुविधा के साथ स्पीच पैथोलॉजिस्ट
4	मानसिक मंदता	मनोवैज्ञानिक/विशेष प्रशिक्षक
5	मानसिक रुग्णता	मनोवैज्ञानिक/क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक
6	बहुनिःशक्तता	संबंधित पारा मेडिकल कार्मिक

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना में

- (i) "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" से अभिप्रेत है प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र।
(ii) "रेफरल/सबरेफरल/अनुमण्डल अस्पताल" से अभिप्रेत है अनुमण्डल स्तर पर अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र।
(iii) सिविल अस्पताल/जिला अस्पताल से अभिप्रेत है जिला स्तर पर अवस्थित अस्पताल।
(iv) "कानूनी स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है :-
(क) संविधान के अनुच्छेद-243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित एक पंचायत।
(ख) संविधान के अनुच्छेद -243P के खंड (ड) में यथा परिभाषित एक नगरपालिका।
(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधि द्वारा अथवा के अधीन स्थापित कोई अन्य स्थानीय निकाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
विजय कुमार वर्मा,
प्रधान सचिव।

The 13th May 2010

No.-1/Sa.Su.Vi.Yo-04/10 S.W- 967—In pursuance of the provisions of sub-clause (t) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the Government of Bihar, hereby specifies, for the purpose of issue of certificate of disability as mentioned in sub-clause (t) of the said Section 2, the hospitals and institutions mentioned in column 3 of the table given below, as "medical authorities" for the type of disability mentioned in column 2 thereof, and further directs that the medical officer of the hospital / institution as mentioned in Col. 4 shall be authorized to issue the disability certificate under his signature on behalf of the medical authority.

S.No.	Type of Disability	Hospital / Institution which is being specified as the "Medical Authority" for the purpose of the disability mentioned in Col. 2	Medical Officer working in the Hospital / Institution mentioned in Col. 3 who would be competent to issue certificate of disability.
1	2	3	4
1	(i) Locomotor Disability by way only of amputation or complete permanent paralysis of limbs. (ii) Blindness	(i) Government Medical Colleges (ii) District Hospital, Referral Hospitals, Civil Hospital, Civil Dispensary, Primary Health Centre (PHC) and Additional Primary Health Centre (APHC) under the State Government. (iii) Medical College (iv) Hospital / Dispensary run by Statutory Local Bodies	(i) Assistant Professor or Professor of Orthopedic or Neurology in Govt. Medical Colleges. (ii) Head/Senior most Doctor in charge of the Primary Health Centre, APHC, Civil Dispensary, District Hospital, Civil Hospital, Referral Hospital and the Principal of the Medical College. (iii) Such doctor(s) working in other hospitals mentioned in col. 3 as may be authorized by an order of the head of such hospital.
2	Multiple disability	(i) Govt. Medical Colleges (ii) District Hospitals and Referral Hospitals. (iii) Other Hospitals run by the State Govt. or Statutory Local Bodies having (a) specialists (b) necessary measurement / assessment / evaluation facilities in relevant fields (e.g. audiometric, optometric and other testing facilities). (iv) Bihar College of Physiotherapy and Occupational Therapy (Viklang Hospital Kankarbagh, Patna) (v) Military Hospital Danapur, Patna, Paharpur and Gaya	A Medical Board as may be specified by a Medical Superintendent / Chief Medical Officer / Head of the District Hospital, Referral Hospitals headed by a senior specialist, and consisting of Doctors with post-graduate degree in the disciplines dealing with relevant disabilities with minimum 5 years of service.

S.No.	Type of Disability	Hospital / Institution which is being specified as the "Medical Authority" for the purpose of the disability mentioned in Col. 2	Medical Officer working in the Hospital / Institution mentioned in Col. 3 who would be competent to issue certificate of disability.
1	2	3	4
3	Disabilities not mentioned at S.No. 1 and 2 above (viz. low vision, leprosy and hearing impairment, mental retardation, mental illness.	(i) Govt. Medical Colleges (ii) District Hospitals (iii) Other Hospitals run by the State Government of Statutory Local Bodies having specialists and necessary measurement / assessment / evaluation facilities in relevant fields (e.g. audiometric, optometric and other testing facilities.	A Doctor having a Post-graduate degree in the discipline dealing with the relevant disability with minimum 5 years of service.

NOTE:-

- In respect of categories mentioned as S.No. 2 and 3 in Col. 2 of the table above, if in a Hospital, mentioned in Col. 3, a doctor with a PG degree in the relevant discipline is not available, the Head of such Hospital may utilize the services, of a retired Govt. specialist or other private specialist practicing at that place or elsewhere in the district or a specialist from a nearby medical college and having requisite qualifications. However, in case of services taken from a non-government specialist, the certificate will be valid only when countersigned by the Chief Medical Officer in case of District Hospitals or head of other hospitals mentioned in Col. 2 of the table above against item 2 and 3.
- Likewise, if a Hospital mentioned above does not requisite assessment facilities, the Head of such Hospital may use the facilities of a non-Government Laboratory / testing facility located at the same place or at a nearby place in the District.
- Assistance of Para-Medics/ Rehabilitations Professionals for issuance of disability certificate: Specialists mentioned in the Rules may, utilize the services / assistance of Para-Medics/Rehabilitations Professionals according to the following, if locally available, so that assessment of disability is faster and smoother.

S.No.	Type of Disability	Assisting Paramedic / Rehabilitation Professional
1	(i) Locomotor Disability (including any form of Cerebral Palsy) (ii) Leprosy treated	Occupational Therapist/ Physiotherapist
2	(i) Blindness (ii) Low Vision	Optometrist with required facility
3	Hearing Impairment	Audiologist / Speech Pathologist having access to audiometric lab facility / resources centre
4	Mental Retardation	Psychologist / Special Educator

S.No.	Type of Disability	Assisting Paramedic / Rehabilitation Professional
5	Mental Illness	Psychologist / Clinical Psychologist
6	Multiple Disabilities	Concerned Paramedical Personnel

Explanation :- In this notification

- (i) "Primary Health Centre" means Health Centre situated at block level.
- (ii) "Referral / Sub Referral Hospital/Sub-Divisional Hospital" means hospital situated at sub-divisional level.
- (iii) "Civil Hospital / District Hospital" means situated at district hospital.
- (iv) "Statutory Local Body" means :-
 - (a) A Panchayat as defined in clause (d) of Article 243 of the Constitution.
 - (b) A Municipality as defined in clause (e) of Article 243 P of the Constitution and
 - (c) Any other local body established by or under a law passed by the legislature of the State.

By order of the Governor of Bihar,
VIJAY KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 691-571+5000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>